

## प्रेस नोट दिनांक-30.09.2020

(1). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मादक पदार्थों की बिक्री एवं रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुशील चन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री असलम खां तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुरेश रैदास पुत्र दुख्खा निवासी रेखा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 450 ग्राम सूखा नाजायज गांजा के साथ राजापुर रोड रेखा से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में मु0अ0स0 116/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी-

450 ग्राम सूखा गांजा नाजायज

### बरामद करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री असलम खां थाना रैपुरा।
2. का0 ओम प्रकाश पाल
3. म0का0 अनामिका

(2). आज दिनांक 30.09.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा पति-पत्नी के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र बाल किशुन निवासी खुरहण्ड स्टेशन, बंधिया कालोनी थाना गिरवा जनपद बांदा द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पत्नी श्रीमती पूनम पुत्री राज राज बहादुर निवासी बनवारी थाना कर्वी जिसके द्वारा मेरे साथ झगड़ा कर लिया गया है और घर नहीं आ रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त मुख्य आरक्षी अरुण कुमार एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर उसकी पत्नी से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों ने विवाद न करने की बात कही। श्री जितेन्द्र कुमार व उसकी पत्नी श्रीमती पूनम द्वारा आपस में सुलह की गयी, सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा दोनों पति-पत्नी को पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(3). आज दिनांक 30.09.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय द्वारा कोतवाली कर्वी के काली देवी चौराहे, ट्राफिक चौराहा का भ्रमण कर कानून और शांति व्यवस्था ड्यूटीज में लगे पुलिस बल को चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(4). आज दिनांक 30.09.2020 को पुलिस लाईन्स सभागार में क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स श्री रजनीश कुमार यादव द्वारा प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह की उपस्थिति में पुलिस विभाग में अपनी सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगणों को शॉल एवं माला पहनाकर तथा प्रशस्ति पत्र देकर भावभीनी विदायी गयी। इस दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे उ0नि0 श्री मोहम्मद शगीर, उ0नि0 श्री श्रीनिवास राय, उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र, मुख्य आरक्षी छोटेलाल तथा आरक्षी कुंवरलाल को हल्का नास्ता करवा कर मुह मीठा करवाया गया। सेवानिवृत्त हुये सभी अधिकारी/कर्मचारीगणों को कहा गया कि घर जाकर स्वास्थ्य का ध्यान रखें रहें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरूकता एवं चेकिंग अभियान में दिनांक 29.09.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना राजापुर में 04 व्यक्तियों के विरुद्ध, थाना कोतवाली कर्वी में 06 व्यक्तियों के विरुद्ध, थाना भरतकूप में 05 व्यक्तियों के विरुद्ध, थाना पहाड़ी में 05 व्यक्तियों के विरुद्ध, थाना मारकुण्डी में 02 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(6). आज दिनांक 30.09.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा थाना पहाड़ी का मानसून निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये:-

(1). महोदय द्वारा कोविड हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर आने जाने वालों के सम्बन्ध में अंकित विवरण को चैक किया गया।

(2). थाना परिसर का भ्रमण कर बैरिक, भोजनालय, आवासीय कालोनी, शौचालय का को देखा गया तथा उचित साफ-सफाई एवं बैरिक की मरम्मत हेतु प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(3). थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया।

(4). सीसीटीएनएस कार्यालय का निरीक्षण कर सीसीटीएनएस में नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(5). थाना के समस्त आर्म्स एम्पुनेशन का निरीक्षण कर सभी का रजिस्टर से मिलान करवाया गया।

(6). थाना कार्यालय के समस्त रजिस्ट्रों का अवलोकन किया गया जिसमें आवश्यक सुधार हेतु प्रभारी निरीक्षक एवं हेड मुहर्रि को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(7). लावारिस एवं मुकदमों से सम्बन्धित वाहनों तथा मुकदमों से सम्बन्धित मालों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्रवण कुमार सिंह, पीआरओ श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।